

HZL/2023-SECY/

October 21, 2023

BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex,
Mumbai – 400051

Kind Attn: - General Manager,
Dept. of Corporate Services

Kind Attn:- Head - Listing & Corporate
Communications

Scrip Code: 500188

Trading Symbol: HINDZINC-EQ

Dear Sir(s),

Sub: - Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015 (Copies of Newspaper Advertisement of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results the Second Quarter and Half Year ended September 30, 2023 of the Company)

Dear All,

In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements relating to approval of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results the Second Quarter and Half Year ended September 30, 2023 of the Company, published in National level newspaper Business Standard (all edition) and local newspaper Rajasthan Patrika (Udaipur) & Dainik Bhaskar (Udaipur) on October 22, 2023. The aforesaid results also available on the Company's website www.hzindia.com.

Request you to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For **Hindustan Zinc Limited**

Rajendra Pandwal
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above.

Q2 RESULTS ROUND-UP

Paytm trims loss to ₹290 cr



SCANNING THE NUMBERS
Consolidated figures in ₹ crore

	Q2FY24	% change	
		Q-o-Q	Y-o-Y
Revenue	2,518.6	7.56	31.59
Other Income	143.9	17.37	44.48
Net Loss	-290.5	loss	loss

AJINKYA KAWALE
Mumbai, 20 October

One97 Communications, the parent company of fintech major Paytm, saw its net loss narrow to ₹290.5 crore on a consolidated basis during the second quarter of the financial year (Q2 FY24) from a loss of ₹357 crore in Q1 FY24. The company had posted a net loss of ₹571.1 crore in the second quarter of last financial year (Q2 FY23). The Noida-based fintech firm's total income rose 8 per cent on a quarter-on-quarter (Q-o-Q) basis from ₹2,464.2 crore in Q1 to ₹2,662.5 crore in Q2. On a year-on-year

(Y-o-Y) basis, the company's total income rose 32.2 per cent from ₹2,013.6 crore. The company reported a 7.6 per cent Q-o-Q increase in revenue from operations at ₹2,518.6 crore in Q2 FY24 from ₹2,341.6 crore in Q1 FY24. Its expenses have increased 4.8 per cent Q-o-Q to ₹2,936.7 crore in Q2 FY24 from ₹2,800 crore. On a Y-o-Y basis, expenses rose 14.6 per cent from ₹2,561.4 crore. However, the fintech firm has cut down on its marketing and promotional expenses. It spent ₹252.8 crore in Q2 on marketing and promotional activities, a 4 per cent decline from ₹265.3 crore in Q1.

JSW Steel reports ₹2,760 crore profit

ISHITA AVAN DUTT
Kolkata, 20 October

STEELY SHOW

Consolidated figures in ₹ crore

	Q2 FY24	% Chg Y-o-Y
Revenue	43,834	6.6
Other income	237	26.1
Net profit	2,760	LTP

LTP: Loss to Profit; Source: Company

JSW Steel on Friday reported a consolidated net profit of ₹2,760 crore in the July to September quarter (Q2FY24) on the back of higher sales and lower coking coal costs. In the year-ago period, it had recorded a net loss of ₹848 crore. Revenue on a consolidated basis in Q2FY24 at ₹43,834 crore was higher by 6.64 per cent year-on-year (Y-o-Y). The numbers beat expectations on revenue and profit. The Bloomberg consensus estimate for revenue was ₹42,539.9 crore and net income adjusted ₹2,418.6 crore. Sequentially, revenue was up 4.93 per cent and net profit 18.04 per cent. The company benefited from lower coking coal prices on a Y-o-Y basis at Indian operations even as net sales realisation was down by 4 per cent. Steel sales for the quarter stood at

JSW Energy net jumps 82%

JSW Energy on Friday posted an 82 per cent rise in its consolidated net profit to ₹850 crore for the September quarter on the back of higher revenues. "Profit After Tax (PAT, or consolidated net profit) was ₹466 crore in the corresponding period of previous year," a company statement said. 6.34 million tonnes (mt), higher by 10 per cent Y-o-Y. For the quarter, there was also an exceptional gain of ₹589 crore.

Hindustan Zinc profit plunges 35%

AMRITHA PILLAY
Mumbai, 20 October

Hindustan Zinc reported a 35 per cent year-on-year (Y-o-Y) dip in net profit for the quarter ended September 2023 (Q2FY24) as London Metal Exchange (LME) prices came under pressure. The company's metal production and revenues also took a dip on a Y-o-Y basis. For Q2FY24, Hindustan Zinc's net profit was at ₹1,729 crore. Sequentially, net profit

dipped 12 per cent. Revenues for the company in the quarter under review were at ₹6,619 crore, down 18.6 per cent. Other income for the quarter also declined 39.2 per cent to ₹223 crore. "Revenue from operations during the quarter was down on account of significantly lower zinc prices, lower zinc and silver volumes and differential strategic hedging impact partly offset by higher lead and silver

prices and favourable exchange rates," the company said in its statement. In an interaction with *Business Standard*, Arun Misra, chief executive officer of Hindustan Zinc, said LME prices were under pressure over weakness in demand in other foreign economies. "India's zinc demand remains robust and positive. Global zinc prices look subdued even if they stabilise at the current rates it is good for the firm."

HINDUSTAN ZINC LIMITED
Regd Office: Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004
PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzindia.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Total income from operations	7,014	7,564	8,703	14,578	18,400	35,477
2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,305	2,610	3,925	4,915	8,597	15,288
3 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,305	2,610	3,925	4,915	8,597	15,288
4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,729	1,964	2,680	3,693	5,772	10,511
5 Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,688	1,993	2,345	3,681	5,868	10,552
6 Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845	845
7 Reserves	12,810	14,080	30,431	12,810	30,431	12,087
8 Net Worth	13,655	14,925	31,276	13,655	31,276	12,932
9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	11,324	9,330	2,111	11,324	2,111	11,841
10 Debt Equity Ratio	0.83	0.63	0.07	0.83	0.07	0.92
11 Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations						
Basic :	4.09	4.65	6.34	8.74	13.66	24.88
Diluted:	4.09	4.65	6.34	8.74	13.66	24.88
12 Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	1.34	16.02	5.86	2.55	12.25	17.65
13 Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	13.89	16.02	98.80	14.92	113.71	60.07

NOTES:
The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited("the Company") and its subsidiaries("the Group") for the quarter and half year ended September 30, 2023 have been reviewed by Audit & Risk Management Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on October 20, 2023 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company.

Key Standalone Financial information:

PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	7,023	7,569	8,703	14,592	18,400	35,480
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599	15,297
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599	15,297
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,737	1,970	2,681	3,707	5,774	10,520

The above is an extract of the detailed format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results is available on the Exchange websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.hzindia.com.

Additional disclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
(i) Operating margin (%)	34%	35%	43%	34%	46%	42%
(ii) Net Profit margin (%)	25%	27%	32%	26%	33%	31%
(iii) Debt Service Coverage Ratio (in times) (not annualized)	1.34	16.02	5.86	2.55	12.25	17.65
(iv) Interest Service Coverage Ratio (in times) (not annualized)	13.89	16.02	98.80	14.92	113.71	60.07
(v) Bad debts to Account receivable ratio (%) (not annualized)	-	-	-	-	-	-
(vi) Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized)	22.79	21.45	14.61	47.22	32.61	62.22
(vii) Inventory Turnover ratio (in times) (not annualized)	2.01	2.07	1.63	4.16	3.59	8.65
(viii) Debt-Equity Ratio (in times)	0.83	0.63	0.07	0.83	0.07	0.92
(ix) Current Ratio (in times)	1.12	1.08	3.44	1.12	3.44	0.96
(x) Current Liability Ratio (in times)	0.58	0.62	0.55	0.58	0.55	0.68
(xi) Total Debts to Total Assets (in times)	0.32	0.27	0.05	0.32	0.05	0.33
(xii) Long Term Debt to Working Capital (in times)	3.62	3.65	0.14	3.62	0.14	**
(xiii) Net Worth (₹ in Crore)	13,655	14,925	31,276	13,655	31,276	12,932

** Net working capital is negative
Figures for previous year and quarter have been revised or reclassified, wherever necessary, for consistency.

By Order of the Board
Arun Misra
CEO & Whole-time Director

Date: October 20, 2023
Place: Udaipur

PNB MetLife India Insurance Company Limited: Newspaper Publication
Registration Number: 117 dated August 6, 2001 with IRDAI
(Regulation 52 (8) read with regulation 52 (4) of the Listing Regulations)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ending September 30, 2023	Half year ending September 30, 2023	Quarter ending September 30, 2022
1	Premium Income (Gross) (Refer note (c))	2,26,361	3,95,893	2,14,934
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,956	9,387	2,353
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (Refer note (e))	4,956	9,387	2,353
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	4,876	9,060	2,078
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	NA	NA	NA
6	Equity Share Capital (as at date)	2,01,288	2,01,288	2,01,288
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet (Refer note (f))	-	-	-
	Earning per share (Face value of ₹10 each)			
8	a. Basic (Not annualized for three and six months) (in ₹)	0.24	0.45	0.10
	b. Diluted (Not annualized for three and six months) (in ₹)	0.24	0.45	0.10
9	Debt-equity ratio (no. of times)	0.26	0.26	0.29
10	Debt service coverage ratio (no. of times)	7.05	6.76	3.87
11	Interest service coverage ratio (no. of times)	7.05	6.76	3.87

Footnotes
a) This format is modified to reflect the terminology used in the Insurance Act IRDAI Regulations.
b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the Company's website 'https://www.pnbmetlifefinancials.com'.
c) Premium income is gross of reinsurance and net of GST.
d) Line Item No. 5 would be disclosed when Ind AS become applicable to Insurance companies.
e) Net Profit/(Loss) before tax, for the period is Profit/(Loss) before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account).
f) Reserves are excluding Revaluation Reserve and fair value change account.
g) #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Policyholders' and Shareholders' account in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable.
h) The Company has issued and allotted 4,000 unsecured, subordinated, listed, rated, redeemable, taxable, non-convertible debentures (NCDs) in the nature of 'Subordinated Debt' in accordance with IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015 of face value of ₹1,000 thousands (each at par) aggregating to ₹4,00,000 thousands through private placement on January 27, 2022.
i) Debt-equity ratio is calculated as Total borrowings divided by Net worth
Net Worth=Share Capital+Free Reserves and Surplus+Credit/(Debit) Fair Value Change Account-Debit Balance in Profit and Loss Account
j) Debt service coverage ratio is calculated as Profit before interest and tax divided by interest expense together with principal repayments of long term debt during the period.
k) Interest service coverage ratio is calculated as Profit before interest and tax divided by interest expense.

For and on behalf of the Board of Directors
Ashish Kumar Srivastava
Managing Director and CEO
DIN No. 00355075

Place: Mumbai
Date: October 20, 2023

PNB MetLife India Insurance Company Limited, Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117 dated August 6, 2001 with IRDAI. (Regulation 52 (8) read with regulation 52 (4) of the Listing Regulations) CI No. U66010KA2001PLC028883. The marks "PNB" and "MetLife" are registered trademarks of Punjab National Bank and Metropolitan Life Insurance Company, respectively. PNB MetLife India Insurance Company Limited is a licensed user of these marks. Call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlifefinancials.com Email: india.service@pnbmetlifefinancials.co.in or write to us at 1st Floor, Techniplex-1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai - 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203. AD-NF/2023-2024/186.

CSB Bank
Trusted Heritage Smart Future

BEYOND AGE, THERE'S LIVING!
GIVE MORE POWER TO YOUR DREAMS!

CSB SENIOR CITIZEN INDEPENDENCE SAVINGS ACCOUNT
CSB WOMEN POWER SAVINGS ACCOUNT

YOY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- NET PROFIT: ₹133 CR (10%)
- NET INTEREST INCOME: ₹344 CR (8%)
- OTHER INCOME: ₹148 CR (200%)
- TOTAL BUSINESS: ₹47906 CR (24%)
- PCR: 92% (161 BPS)
- NET NPA: 0.33% (24 BPS)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	83,579	80,504	60,012	1,64,083	1,19,090	2,63,566
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	17,796	17,670	16,109	35,465	31,413	73,361
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	17,796	17,670	16,109	35,465	31,413	73,361
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	13,317	13,223	12,055	26,539	23,507	54,736
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))				Refer Note: 3		
6	Equity Share Capital	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet.						2,87,807
8	Earnings Per Share (before extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)						
	Basic:	7.68	7.62	6.95	15.30	13.55	31.55
	Diluted:	7.68	7.62	6.95	15.30	13.55	31.55
9	Earnings Per Share (after extraordinary items)* (Face value of ₹10/- each)						
	Basic:	7.68	7.62	6.95	15.30	13.55	31.55
	Diluted:	7.68	7.62	6.95	15.30	13.55	31.55

*Not Annualised
Notes:
1. The above unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Bank in their respective meeting held on October 20, 2023. These results have been subjected to Limited Review by the Joint Statutory Auditors of the Bank, viz. Mukund M. Chitale & Co., Chartered Accountants and Walker Chandok & Co. LLP, Chartered Accountants and an unmodified review report has been issued. The previous period's figures were reviewed/audited by Mukund M. Chitale & Co., Chartered Accountants and B S R & Co. LLP, Chartered Accountants.
2. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 is available on the website of Stock Exchanges at https://www.nseindia.com and https://www.bseindia.com and also on the Bank's website at https://www.csb.co.in.
3. Information related to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as IND AS is not yet made applicable to banks.

For CSB Bank Limited
Pralay Mondal
Managing Director & CEO
DIN:00117894

Thiruvuru | October 20, 2023
CSB Bank Limited, Regd. Office: CSB Bhawan, Post Box No. 502, St. Mary's College Road, Thiruvuru - 680 020, Kerala, India.
Tel: +91 487-2333020 | Fax: +91 487-2338764 | Website: www.csb.co.in | Email: board@csb.co.in | Corporate Identity Number: L65191KL1920PLC000175

- टॉप मूवीज
 - निशन रामनगर : अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, रवि किशन
रेटिंग: 7.6
 - बैल्यू फॉर दमिग : भूमि पेडनेकर, कुशा कपिल्या, रहमान गिब, शिवाजी
रेटिंग: 8.2
 - बोनों : राजदीप वेओल, पलमी टकेरिया, रुक्मिणी
रेटिंग: 9.1
 - सुफिया : लखू अली फख्त, वामिक सखी, आशीष विद्यावा
रेटिंग: 6.1

- टॉप ओटीटी
 - शोकी : टॉम हिल्टनसन
ओटीटी : हिन्नी हॉट स्टार प्लस
रेटिंग : 8.2
 - मुंबई डायरी सीजन 2 : मोहित राना, टीना देसाई
ओटीटी : अमेज़न प्राइम वीडियो
रेटिंग : 8.7
 - ब फ्रीलाइवर : मोहित राना
ओटीटी : हॉट स्टार ओरिजनल
रेटिंग : 9.6
 - ब गमच एंड गुलबत : राजकुमार राव, रत्नकीर सलमान
ओटीटी : नेटफ्लिक्स
रेटिंग : 7.8

रिक्त सीटों पर प्रवेश 25 तक

उदयपुर @ पत्रिका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के फंक्शनरियर एवं जेनरलमैनर विभाग में हम सब के लिए एयर (पत्रकारिता), तथा पीजी डिप्लोमा की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। फिनाली काउन्सिलिंग 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगी। हेड जनरलरी विभागध्यक्ष डॉ. कुंजन अच्यार्य से डी।

गरबों की धूम, लोग रहे झूम

पत्रिका plus विशेष रिपोर्ट patrika.com

उदयपुर नवरात्र में शहर के विभिन्न मोहल्लों में इन दिनों गरबा की धूम चल रही है। बड़ी जमात सभाजो की और से पारम्परिक गरबा आयोजन हो रहे हैं तो कई स्थानीय गरबा मंडल माधुरिक आयोजन कर रहे हैं। चणुओर गुजराती पारम्परिक गीतों को गुन सुनाई दे रही है। शहर के गणपती घाट माता शिवल नगरो की पील में नागर समाज के लोग अम्बे मा की तस्वीर के समर्थ में डीने से बने हुए गरबे स्थापित कर शिव विधिपुत्र पूजा कर माता की आरती व मृगुि के बाद परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा गरबा गाकर एवं ताली बजा कर गरबा नृत्य किया जा रहा है।



रेटरी रुक्मिणी और से रेटरी भवन में आयोजित गरबा मोहल्लव में मराणा प्रताप विश्व नागरिक संस्थान के 300 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने जमकर गरबा खेला। संस्थान के महाप्रबन्धक भवन में ने प्रायत कि रेटरी के अध्यक्ष गीरीश मेहत, वेपयने डी.पी धाकड़ एवं संस्थान के अध्यक्ष चोयरावल नवरात्र में मा दुर्गा की पूजा की और सभी ने डाडिया खेला।

विद्यापीठ संस्थान परिसर में गरबा कार्यक्रम का आयोजन।

विद्या भवन रुक्मिणी इंस्टीट्यूट स्नातकोत्तर में शुरुआत को एक दिवसीय गरबा खेला गया। मुख्य अतिथि विद्या भवन सोमायटी के अध्यक्ष अजय मेहत थे। संस्थान निदेशक डॉ. टी.डी.शर्मा ने कार्यक्रम में ऐसे सांस्कृतिक समारोहों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह जानकारी छात्र कल्याण अधिकारिता डॉ. राय अर्जुन ने दी।

जहांसे राय नागर गुजस्थान विद्यापीठ के सचिव अजय संस्थान एवं कक्षा महाविद्यालय के सचिव लखवण ने संस्थान परिसर में डाडिया मोहल्लव हुआ।

साधारण कुलपति प्रो.एम.एम. सायदेखान, सुभाष कोरार, डॉ.जिना खान, डॉ. गुणधामल आमेय, डॉ. रचना राठी, डॉ. मुनिता मुर्दिया, डॉ. नीरू राठी ने माता की पूजा-अर्चना कर किया। समाजो में विद्यार्थियों के साथ संस्था सदस्यों ने भी परम्परिक परिधान में गुजराती, राजस्थानी गीतों पर गरबा व डाडिया खेला।

विद्या भवन रुक्मिणी इंस्टीट्यूट स्नातकोत्तर में शुरुआत को एक दिवसीय गरबा खेला गया। मुख्य अतिथि विद्या भवन सोमायटी के अध्यक्ष अजय मेहत थे। संस्थान निदेशक डॉ. टी.डी.शर्मा ने कार्यक्रम में ऐसे सांस्कृतिक समारोहों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह जानकारी छात्र कल्याण अधिकारिता डॉ. राय अर्जुन ने दी।

जहांसे राय नागर गुजस्थान विद्यापीठ के सचिव अजय संस्थान एवं कक्षा महाविद्यालय के सचिव लखवण ने संस्थान परिसर में डाडिया मोहल्लव हुआ।

साधारण कुलपति प्रो.एम.एम. सायदेखान, सुभाष कोरार, डॉ.जिना खान, डॉ. गुणधामल आमेय, डॉ. रचना राठी, डॉ. मुनिता मुर्दिया, डॉ. नीरू राठी ने माता की पूजा-अर्चना कर किया। समाजो में विद्यार्थियों के साथ संस्था सदस्यों ने भी परम्परिक परिधान में गुजराती, राजस्थानी गीतों पर गरबा व डाडिया खेला।

Sunflame
THE CLEAR CHOICE

SAVE UP TO 30%*
ON 3 BURNER COOKTOPS & GET HANDY CHOPPER HC 650
WORTH
RS. 945/- FREE

Ek Saath 7 OFFER

SAVE UP TO 40%*
ON CHIMNEYS & GET KETTLE SF 193
WORTH
RS. 1,295/- FREE

SAVE UP TO 30%*
ON 2 BURNER COOKTOPS & GET GAS LIGHTER
WORTH
RS. 249/- FREE

SAVE UP TO 35%*
ON SMALL APPLIANCES & GET GAS LIGHTER
WORTH
RS. 249/- FREE

SAVE UP TO 30%*
ON 4 BURNER COOKTOPS & GET NON-STICK DOSA TAWA 250 MM
WORTH
RS. 910/- FREE

SAVE FLAT 48%*
GET MYSTIC 60 CM CHIMNEY
SOLAIRE 3 BURNER COOKTOP
AT RS. 56,290/-
RS. 29,990/-

SAVE FLAT 33%*
GET NON-STICK SET OF 6 PCS
HA SAUCEPAN 1L
AT RS. 5,149/-
RS. 2,780/-

*Terms & Conditions: This offer is valid from 21st October 2023 to 21st November 2023 (inclusive of both days). Images shown are for illustrative purposes only. Actual product may vary. The gift can be collected from the Retailer at the time of purchase. The Free Gift/Appliance offer cannot be clubbed with any other offer and cannot be redeemed on e-commerce with any other gift or substitution for cash. Products also available without this offer. This offer is valid only on MRP and is available at selected stores on selected models till the stock last or during the offer period, whichever is earlier. For further T&C, please visit <https://sunflame.com/terms-conditions>.

HINDUSTAN ZINC LIMITED					
Regd Office: Yashad Bhawan, UDC/PU/313/04 PXB No. 0294-6604000, CIN-1272049/J98R/LC001208, www.hindzinc.com					
STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023					
PARTICULARS	Quarter ended		Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1. Total Income from operations	7,014	7,564	8,703	14,578	18,400
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,309	2,610	3,925	4,915	8,597
3. Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,305	2,610	3,925	4,915	8,597
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,729	1,964	2,680	3,693	5,772
5. Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)*)	1,688	1,993	2,345	3,681	5,868
6. Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845
7. Reserves	12,810	14,080	30,431	12,810	30,431
8. Net Worth	13,655	14,925	31,276	13,655	31,276
9. Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	11,324	9,330	2,111	11,324	2,111
10. Debt Equity Ratio	0.83	0.63	0.07	0.83	0.07
11. Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 equity) for continuing and discontinued operations	4.09	4.65	6.34	8.74	13.66
Basic	4.09	4.65	6.34	8.74	13.66
Diluted	4.09	4.65	6.34	8.74	13.66
Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	1.34	16.02	5.86	2.55	12.25
Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	13.89	16.02	98.80	14.92	113.71

NOTES:

The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited ("the Company") and its subsidiaries ("the Group") for the quarter and half year ended September 30, 2023 have been reviewed by Audit & Risk Management Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on October 20, 2023 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company.

Key Standalone Financial Information:

PARTICULARS	Quarter ended		Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	7,023	7,569	8,703	14,592	18,400
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,737	1,970	2,681	3,707	5,774

The above is an extract of the detailed format of the unaudited stand-alone and consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results is available on the Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.hindzinc.com.

Additional disclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

PARTICULARS	Quarter ended		Half Year ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
(i) Operating margin (%)	24%	35%	43%	34%	46%
(ii) Net Profit margin (%)	25%	27%	32%	26%	33%
(iii) Debt Service Coverage Ratio (in times) (not annualized)	1.34	16.02	5.86	2.55	12.25
(iv) Interest Service Coverage Ratio (in times) (not annualized)	13.89	16.02	98.80	14.92	113.71
(v) Paid debts to Account receivable ratio (%) (not annualized)	-	-	-	-	-
(vi) Debtor Turnover ratio (in times) (not annualized)	22.79	21.45	14.61	47.22	32.61
(vii) Inventory Turnover ratio (in times) (not annualized)	2.01	2.07	1.63	4.16	3.59
(viii) Debt-Equity Ratio (in times)	0.83	0.63	0.07	0.83	0.07
(ix) Current Ratio (in times)	1.12	1.08	3.44	1.12	3.44
(x) Current Liability Ratio (in times)	0.98	0.62	0.55	0.58	0.55
(xi) Total Debts to Total Assets (in times)	0.32	0.27	0.05	0.32	0.05
(xii) Long Term Debt to Working Capital (in times)	3.82	3.65	0.14	3.62	0.14
(xiii) Net Worth (₹ in Crore)	13,655	14,925	31,276	13,655	31,276

* Net working capital is negative

Figures for previous year and quarter have been revised or reclassified, wherever necessary, for consistency.

Date: October 20, 2023
Place: Udaipur

By Order of the Board
Arun Miera
CEO & Whole-time Director

hindware
smart appliances

इंडिया की पहली इटेलीजेंट चिमनी
आपकी तरह

Zirconia Blk AQ
• Max Suction 1150m³/hr • Filter-Less Technology
Net Quantity: 1 U

Ember 3B
• Forged Brass Burner • Cast Iron Pan Support
Net Quantity: 1 U

WIDEST RANGE OF SILENT & AUTOCLEAN CHIMNEYS

OFFER PRICE ₹25,290 (incl. of GST)

MRP ₹50,000 (incl. of GST)

FESTIVE OFFERS
Available at all leading outlets

www.hindwareappliances.com

WhatsApp Support 491-998230004

1800-103-3100


Jaipur - Gopal Pur Road - Kaizen Appliances 9950522333, New Atish Market PRG & Company, Alwar - 200ft road Ambika For Trade Enquiries - 9772522108

अब दो दिन बाकी... मौके पर ही स्कीम और डिस्काउंट भी दिया जा रहा दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो शुरू, एक ही परिसर में घर खरीदने के ढेरों विकल्प



आकर्षक स्कीम दे रहे : पामेचा

दैनिक भास्कर वाच पत्र परियोजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्कीम को अपने गंतव्य के अंतर्गत लाने के लिए 'दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को एक ही परिसर में घर खरीदने के एक ही विकल्प दिए जा रहे हैं।



दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।

लोन का विकल्प भी उपलब्ध : कोठारी

दैनिक भास्कर वाच पत्र परियोजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्कीम को अपने गंतव्य के अंतर्गत लाने के लिए 'दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को एक ही परिसर में घर खरीदने के एक ही विकल्प दिए जा रहे हैं।



दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।

उत्तरांचल के अग्रणी 'दैनिक भास्कर वाच पत्र' परियोजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्कीम को अपने गंतव्य के अंतर्गत लाने के लिए 'दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को एक ही परिसर में घर खरीदने के एक ही विकल्प दिए जा रहे हैं।

दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को एक ही परिसर में घर खरीदने के एक ही विकल्प दिए जा रहे हैं।

दैनिक भास्कर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को एक ही परिसर में घर खरीदने के एक ही विकल्प दिए जा रहे हैं।

उदियापोल बस स्टैंड पर मिला शव, मंदिर पुजारी के रूप में पहचान

उदियापोल उदियापोल बस स्टैंड पर एक शव मिला। शव को पहचानने में मदद करने के लिए पुलिस ने शव के पास मौजूद एक मंदिर पुजारी के रूप में पहचान किया। शव के पास मौजूद एक मंदिर पुजारी के रूप में पहचान किया।

शव को पहचानने में मदद करने के लिए पुलिस ने शव के पास मौजूद एक मंदिर पुजारी के रूप में पहचान किया। शव के पास मौजूद एक मंदिर पुजारी के रूप में पहचान किया।

सांप के डसने से किसान की मौत

किसान सांप के डसने से मौत की। सांप के डसने से किसान की मौत हो गई। सांप के डसने से किसान की मौत हो गई।

किसान सांप के डसने से मौत की। सांप के डसने से किसान की मौत हो गई। सांप के डसने से किसान की मौत हो गई।

NATARAJ PREMIUM EXTRA ZINC COATING

प्रत्येक बंदल के साथ एक निश्रित उपहार प्राप्त करें।
NATARAJ WIRE PVT. LTD.
Website: www.natarajwire.com

सौजन्यिकी सुचना

भारत की एक प्रमुख और विश्वव्यापी चिकित्सा संस्था (एच.ए.ए.एस.) अधिष्ठाता प्राध्यापक और चिकित्सक डा. अजय कुमार शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.ए.आर.) द्वारा चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में सौजन्यिकी सुचना दी गई है।

रेडी पजेसन व अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट भी : ओरेंज-की रियल्टर्स

अपने सफल का आश्वासन देते हुए लोगों को दैनिक भास्कर मासिक प्रॉपर्टी एक्सपो साइट पर उपलब्ध करा रहा है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो साइट पर उपलब्ध करा रहा है।

BEAT THE PETROL SAVE MONEY AND EARTH

NISCO e-Bike प्रत्येक बंदल के साथ एक निश्रित उपहार प्राप्त करें।
70 KM PHASE-III, HSIID Industrial Area, Barhi, Distt. Sonapat (Hr.)

AAVAS FINANCIALS LIMITED

Public Notice
Date: 20 October 2023
Company Secretary and Compliance Officer

MBM UNIVERSITY, JODHPUR

Direct Admission Notice (BE/B.Arch)
Date: 20-10-2023

HINDUSTAN ZINC LIMITED

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2023

VISHAL SONEPAT AGRO-TECH PVT. LTD.

REQUIRED DISTRIBUTORS & DEALERS

PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended		
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
Total Income from operations	7,014	7,564	6,703	14,578	16,400	35,477
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,305	2,616	3,925	4,915	8,597	15,288
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,305	2,616	3,925	4,915	8,597	15,288
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,729	1,964	2,680	3,693	5,772	10,511
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,688	1,993	2,345	3,681	5,868	10,552
Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	845	845
Reserves	12,810	14,980	30,431	12,810	30,431	12,087
Net Worth	13,655	14,925	31,276	13,655	31,276	12,932
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	11,324	9,330	21,116	11,324	2,111	11,841
Debt Equity Ratio	0.63	0.63	0.67	0.83	0.07	0.92

विश्व की सफलतम जीरो तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण कर लोगों के जीवन को नई रफ्तार दे रहे: डॉ. दीपक सैनी

आर्थ्यरहित से जुझ रहे लोगों के लिए

जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को बनाया डमरुक

पछले 18 वर्षों में 25 हजार से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके शैलीबी हॉस्पिटल के मनीयनर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. दीपक सैनी आर्थ्यरहित के कारण अपने विचार तक सिमटे हजारों लोगों के जीवन को नई रफ्तार दे चुके हैं। उन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को बुढ़ना आसान और डमरुक कर दिया, जिससे जोड़ों के दर्द से जुझ रहे मरीजों के लिए रिप्लेसमेंट सर्जरी को बनाना का निर्णय लेना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। डॉ. दीपक सैनी ने दैनिक भास्कर को बताया कि भारत में क्यों बढ़ रहा आर्थ्यरहित और इसके उपचार में नई तकनीक क्या है?



डॉ. दीपक सैनी गौरिक हॉस्पिटल, जयपुर

कम उम्र में ही घुटने से संबंधित समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। शुरूआत में तो इसमें ट्रीटमेंट लेकर इस दर्द से राहत पाने की कोशिश की जाती है लेकिन जब समस्या बढ़ने लगती है तो अमूमन 50 से 60 साल के बाद होने वाली ही रिप्लेसमेंट सर्जरी कम उम्र में ही करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर घुटनों में दर्द, सूजन और टेड्युप जैसे लक्षण सामने आ रहे हों तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पर ध्यान न देने से मरीजों को कम उम्र में ही ही रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसी प्रकिया से गुजरना पड़ सकता है। अब मरीजों में 15 साल पहले ही घुटने को ऐसी समस्याएं होने लगी हैं जिससे ही रिप्लेसमेंट सर्जरी द्वारा उपचार करना पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नई मामलों में 40 से 50 साल के लोगों में भी ही रिप्लेसमेंट सर्जरी होने लगी है।

जीरो तकनीक से सर्जरी के कुछ पलों बाद चार राकटे मरीज

डॉ. दीपक सैनी का प्रयास रहा है कि वे मरीज को जल्द से जल्द सामान्य दिनचर्या में लौटने में मदद कर सकें। वे बताते हैं कि जीरो तकनीक से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के परिणाम काफी बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्यारोपण तकनीक से सिर्फ 20 निमट में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है और सर्जरी के 15 से 20 दिन बाद मरीज घर के सव काम कर सकते हैं। नई तकनीक से सर्जरी के बाद मरीज को लंबे फ्रीजिआपेरी सेवास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्जरी के बाद सिर्फ छह हफ्तों में फेस्टिव ड्राइविंग और तीस महीने में फ्रीडॉम गीन से चार किमी तक वॉकिंग कर सकते हैं।

घुटनों के बीच गद्दी घिसने से होता आर्थ्यरहित

डॉ. दीपक सैनी ने बताया कि भारत में आर्थ्यरहित के मरीजों की संख्या 15 कोटि से अधिक है। आर्थ्यरहित से पीड़ित मरीजों को सर्जरी में तेजी से वृद्धि हुई है। यह बीमारी खासकर कुरुम वनास लोगों में ज्यादा देखी जाती है। वे अक्षर जोड़ों के दर्द, सूजन या अकडन की समस्या से परेशान रहते हैं। इस बीमारी के कारण घुटने के बीच की गद्दी घिस जाती है जिससे हड्डियों के दोनों सिरों में घर्षण होने के कारण मरीज को बहुत दर्द होता है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खतरा ज्यादा

सामान्य तौर पर यह समस्या मोटापा, एक्ससाइज्ड में कमी, चोट आदि से संबंधित है। इस समस्या का खतरा पुरुषों की तुलना में

महिलाओं में तीन गुना ज्यादा होता है, जिसके बाद उन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। आर्थ्यरहित जब चौबीस स्टेज पर पहुंच जाती है तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसमें घुटनों के मरीजों को चलते बत या मूवमेंट के दौरान तीव्र दर्द और अहताजता महसूस होती है। ऐसा स्थिति होना है क्योंकि उनको हड्डियों के बीच मीटुड कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाते हैं जिसके बाद हड्डिया आपस में टकराती हैं और मरीज को तीव्र दर्द होता है।

कम उम्र में ही ठीक रहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी

डॉ. दीपक बताते हैं कि हमारी बदलती जीवनशैली के कारण जोड़ों कम उम्र में ही होने लगे हैं जो बुढ़ापे में होते थे। आराम चल जिंदगी और विंगेड खान-पान के कारण अब

न्यूतनन चौरा | संकल्पन की कम संभावना | कम दवाएं | कम समय में सर्जरी

Dr Deepak Salni
You Tube Channel
www.drdeepaksalni.com

SHALBY HOSPITAL

प्रातः 09.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक
200 फीट बाइपास रोड, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर

THE KNEE & HIP CLINIC

सायं 05.30 बजे से सायं 07.30 बजे तक
प्लॉट नंबर-128, हीरा नगर, बीसीएम, जयपुर

HINDUSTAN ZINC LIMITED

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2023

PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended		
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
Total Income from operations	7,023	7,569	6,703	14,592	16,400	35,480
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599	15,297
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,313	2,616	3,926	4,929	8,599	15,297
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,737	1,970	2,681	3,707	5,774	10,520

By Order of the Board
Arun Misra
CEO & Whole-time Director